



## REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)  
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003  
Corporate Office: REC World Headquarters, Plot No. I-4,  
Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)  
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.com  
CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3

SEC-1/187(2)/2022/ 585

Dated: February 4, 2022

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फीरोज जीजीभोय टावर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड—RECLTD	स्क्रिप कोड—532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 <sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001.
Scrip Code—RECLTD	Scrip Code—532955

**Sub: Submission of requisite documents for claiming exemption from TDS or deduction of tax at lower rates, on dividend to be paid to shareholders.**

Dear Sir/Madam,

This is in furtherance of our earlier letter of even date *inter-alia* intimating about declaration of 3<sup>rd</sup> interim dividend @ ₹6/- per equity share of ₹10/- each for the financial year 2021-22. The record date for the said interim dividend is Wednesday, February 16, 2022 and the said interim dividend shall be paid/dispatched on Thursday, March 3, 2022.

In this regard, it is pertinent to mention that as per provisions of Income tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. However, in case a shareholder wants that his/her tax should be deducted at lower rates or no tax should be deducted, then he/she should submit scanned copy of PAN, form 15G/15H & other requisite documents for the financial year 2021-22, unless already submitted, **on or before February 16, 2022**, through e-mail at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) / [balajireddy.s@kfintech.com](mailto:balajireddy.s@kfintech.com) with copy marked to [complianceofficer@recl.in](mailto:complianceofficer@recl.in).

No communication on the tax determination/deduction of tax at lower rates shall be entertained after **February 16, 2022**. It is further informed that in case tax on dividend is deducted at a higher rate in the absence of receipt of the requisite details/documents, refund of the excess tax paid may still be claimed at the time of filing income tax return. However, no claim shall lie against the Company for such taxes deducted. Further, shareholders will be able to see the credit of TDS in Form 26AS, which can be downloaded from their e-filing account at <https://incometaxindiaefiling.gov.in>.

यह आपकी जानकारी के लिए है। This is for your kind information.

धन्यवाद,

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)  
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

**Regional Offices:** Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panchkula, Patna, Raipur, Ranchi, Shimla, Thiruvananthapuram & Vijaywada

**State Offices :** Vadodara

**Training Centre :** REC Institute of Power Management & Training (RECIPMT), Hyderabad